



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 476 राँची, शुक्रवार

4 मई, 2018 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

2 मई, 2018

**संख्या- 8/विविध/104/2017/न०वि०आ०-2319--** नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-1601 दिनांक 8 मार्च, 2017 के द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को आधार पंजीकरण संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं रहने पर Enrolment ID की अनिवार्यता के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है ।

2. भारत सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देशों के द्वारा आम नागरिकों को लोक प्रदायी सेवा प्रदान करने हेतु, उन लाभुकों को भी सेवाएँ प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं, जिनके पास 'आधार' उपलब्ध नहीं है ।

3. तदालोक में जन्म प्रमाण पत्र हेतु आधार अथवा एनरोलमेंट आई डी की अनिवार्यता संबंधी नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-1601 दिनांक 8 मार्च, 2017 को संशोधित करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि वैकल्पिक पहचान पत्र के आधार पर भी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिंह,**

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

-----